



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 153] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1979/ज्येष्ठ 3, 1901

No. 153] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 1979/JYAISTHA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

अधिसूचना

सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 318 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है।

2. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971 से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 38 और उससे सम्बद्ध प्रीक्लिप्सों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“38 धातुओं की विनिर्मितियां जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।”

[अधिसूचना सं. 2/फा. सं. 600/3805/78-डिबीके]

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 24th May, 1979

NOTIFICATION

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

G.S.R. 318 (E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely :—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties (Second Amendment) Rules, 1979.

2. In the Schedule appended to the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, for Serial No. 38 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“38 Manufacture of metals, not otherwise specified.”.

[Notification No. 2/F. No. 600/3805/78-DBK]

MAHESH KUMAR, Under Secy.